


निर्माण सुरभि

राष्ट्रीय संगोष्ठी-2010
निर्माण सामग्रियाँ : विजन 2030

खण्ड-1

12-13 मई 2010



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की
प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान, भोपाल

बेटिंग सिस्टम : आधुनिक भवनों में दीमक नियन्त्रण हेतु एक सर्वोत्तम उपाय

डॉ. बी.एस. रावत तथा कृ. मनप्रीत कौर

बिल्डिंग पैस्ट एवम् माइकालॉजी प्रयोगशाला,

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, भारत)

जिला - हरिद्वार, उत्तराखण्ड

सारांश-


भारत की बढ़ती जनसंख्या, नित् सामने आती अनजान बीमारियों, उष्मा व जल संरक्षण आदि अनेक चुनौतियों से निपटने हेतु, हमारे भावी वैज्ञानिकों व वास्तुकारों ने मिलकर भविष्य की "ग्रीन व हाईटेक बिल्डिंग" का स्वप्न देखा है। सच ही कहा गया है, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास हो सकता है। इस परिदृश्य में हमारा मानना है, कि "भवनों में विनाशक जीव प्रबंधन" हेतु पर्यावरणीय व स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल, दीर्घकालिक तथा सुगम उपाय किये बिना "ग्रीन व हाईटेक बिल्डिंग" का दिवास्वप्न देखना ही निरर्थक होगा। "दीमक" हमारे भवनों में पाया जाना वाला आर्थिक महत्व का एक प्रमुख कीट है। दुनिया के अन्य देशों को छोड़कर, यदि केवल हम एक ही विकसित देश अमेरिका के उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं, कि इस छोटे से कीट दीमक से भवनों में प्रतिवर्ष 11.1 बिलियन डालर से भी अधिक की क्षति होती है। अन्य देशों का क्या हाल होगा? केवल इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है। भवनों में दीमक नियन्त्रण हेतु भारतीय मानक IS : 6313 (2001) एक नवीनतम दीमक उपचार रीति संहिता है। दुर्भाग्यवश इस रीति संहिता में वर्णित दोनों दीमक नाशक रसायनों को विदेशों में स्वास्थ्य व पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के चलते प्रतिबंधित किया जा चुका है। कहने का तात्पर्य यह है, कि मौजूदा समय में हमारे पास "भवनों में दीमक नियन्त्रण हेतु" - पर्यावरण तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल व सरकार द्वारा स्वीकृत प्रभावी विकल्प नहीं है। प्रस्तुत शोधपत्र में, क्लोरफ्लुऑजुरॉन 0.1 प्रतिशत से निर्मित दीमक की बेट (चारे) का भारत की विभिन्न जलवायु, मृदा, दीमक से ग्रसित भवनों तथा दीमक की बाँबियों में सिलसिलेवार परीक्षण किया गया। उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकला, कि मौजूदा समय में भवनों में दीमक नियन्त्रण हेतु क्लोरफ्लुऑजुरॉन 0.1 प्रतिशत से निर्मित बेट एक अतिउत्तम उपाय है। जिसकी प्रयोग-विधि तथा रख-रखाव सरल होने के कारण, उपभोक्ता स्वयं भी बिना किसी प्रशिक्षण के इसको इस्तेमाल कर सकता है।

प्रस्तावना-

दीमक, कृषि तथा भवनों में समान रूप से पाया जाने वाला आर्थिक महत्व का एक महत्वपूर्ण कीट है। विश्वभर में पायी जाने वाली इसकी 2,761 प्रजातियों में से लगभग 300 प्रजातियाँ भारत में पायी जाती हैं। इसकी लगभग 148 प्रजातियाँ भवनों को क्षति पहुंचाती हैं। हिन्दुस्तान में भवनों को क्षति पहुंचाने वाली प्रजातियों में मुख्यतया - *हेटरोटर्मिस इंडिकोला*, *हेटरोटर्मिस मालाबारिकस*, *कोफ्टोटर्मिस डोमोस्टिकस*, *किफोटर्मिस डोमोस्टिकस*, *कोफ्टोटर्मिस हीमी* तथा *ऑडोटोटर्मिस फी* आदि प्रमुख हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर लगभग 70% भूभाग दीमक से ग्रसित है। मिट्टी में दीमकों की संख्या, मृदा में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों पर निर्भर करती है, जो कि प्रति वर्गमीटर के क्षेत्र में कम से कम 2000 तथा अधिक से अधिक 10,000 तक हो सकती है। दीमक को सामाजिक प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह कीट समूह बनाकर रहता है जिसमें राजा,

रानी, श्रमिक, सैनिक तथा अव्यस्क दीमकें होती है। एक समूह में श्रमिक दीमक 90-95%, सैनिक दीमक 5-6%, तथा अव्यस्क 2-4%, तक पायी जाती है। एक व्यस्क समूह में दीमकों की कुल संख्या कम से कम 50,000 से 60,000 तथा अधिक से अधिक 2 लाख से 20 लाख तक हो सकती है। दीमकों को उनके निवास स्थान के आधार पर दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है (1) काष्ठ में पायी जाने वाली दीमकें। ये दीमकें जिस लकड़ी को खाती है, उसी में अपना समूह भी बना लेती है। (2) सबटरेनियन दीमकें। यह दीमकें मिट्टी में रहती हैं तथा मुख्यतया भवनों में नींव के रास्ते प्रवेश करके क्षति पहुंचाती है। एक अनुमान के अनुसार दीमकें अमेरिका में भवनों को प्रतिवर्ष इतनी अधिक क्षति पहुंचाती है, जो कि अन्य सभी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली सम्मिलित क्षति से भी अधिक होती है। दीमक नियन्त्रण हेतु विदेशों में कई प्रकार के विकल्प मौजूद हैं, जिनमें नाना प्रकार की कीटनाशक दवाईयां, माइक्रोबियल बीटी उत्पाद, भौतिक अवरोधक, फ्यूमीगेशन, गर्म व ठंडे तापमान द्वारा दीमक नियन्त्रण, काष्ठ पर लगाये जाने वाले कीटरोधी रसायन, ऐलिटिस इरिगेशन सिस्टम, फोम आधारित दीमक नाशक, कार्बन डाईआक्साइड द्वारा दीमक नियन्त्रण तथा माइक्रोवेव तकनीक आदि प्रमुख हैं। लेकिन भारत में दीमक नियन्त्रण, आज भी विषैले कीटनाशकों पर आधारित है। भारतीय मानक संख्या IS : 6313 (2001) - दीमक नियन्त्रण हेतु नवीनतम रीति सहिता है। जिसमें दो कीटनाशक - क्लोरपायरीफॉस 20 ई.सी. तथा लिडेन 20 ई.सी. का प्रयोग करने की सलाह दी गयी है। लेकिन खेद का विषय है, कि अमेरिका सहित अन्य देशों में ये दोनों कीटनाशक वातावरण तथा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के कारण प्रतिबंधित हैं। शीघ्र ही भारतीय बाजार में भवनों में दीमक नियन्त्रण हेतु अन्य विकल्प भी मौजूद होंगे जिनमें से - बेटिंग सिस्टम प्रमुख है। (1)

बेटिंग सिस्टम - अर्थात "चारा डालकर किसी जीव को पकडना या मारना" - के सिद्धान्त पर आधारित दीमक नियन्त्रण की नवीनतम पद्यति है। हाल ही में, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में एक प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत "बेटिंग सिस्टम" पर परीक्षण किये गये। इस बेटिंग सिस्टम को दीमक के प्रमुख भोजन विशुद्ध अल्फासेलुलोज में कीट विकास रोधी रसायन क्लोरपलुऑजुरॉन की 0.1% मात्रा को मिलाकर तैयार किया गया है। इस रसायन को मिलाने से दीमक के भोजन के स्वाद में न तो कोई बदलाव या तीखापन आता है, और न ही किसी प्रकार की कोई बदबू। अतः सेलुलोज को खाते वक्त दीमक को उसमें उपस्थित इस रसायन का ज्ञान नहीं हो पाता है। अपनी आदत के अनुसार, श्रमिक दीमक सबसे पहले स्वयं भोजन करती है, तत्पश्चात राजा-रानी दीमक, अन्य सैनिक व अव्यस्क दीमकों को भोजन कराती है। विशेष रसायन युक्त भोजन करने से अंततः दीमकों के सम्पूर्ण समूह का विकास अवरुद्ध हो जाता है, तथा शीघ्र ही पूरा समूह समाप्त हो जाता है। (1-12) (चित्र : 01)



चित्र - 01 : क्लोरपलुऑजुरॉन की संरचना


सामग्री तथा कार्यविधि - बेटिंग सिस्टम को मुख्यतया दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-

(1) भूमिगत बेटिंग स्टेशन (IGBS): यह काले रंग की प्लास्टिक के दो अर्द्ध बेलनाकार फलकों से मिलकर बनता है, जिनको प्रयोग से पूर्व इनमें लगी क्लिपों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसकी तली में एक बड़ा सा छिद्र होता है, तथा साइडों में महीन जाली बनी होती है, जिनमें से दीमक आसानी से आवागमन कर सकती है। इसका व्यास 11.0 सेमी. गोलाई 36.6 सेमी. तथा लम्बाई 25 सेमी. होती है। इसके शीर्ष भाग पर लॉक किया जा सकने

वाला प्लास्टिक का विशेष ढक्कन होता है। भूमिगत बेटिंग स्टेशन के भीतरी भाग में उर्ध्वाकार खांचे बने होते हैं, जिनमें यूकेलिप्टिस की लकड़ी से बनी 175 x 36.5 x 5 मी.मी. साईज की छः फिट्टियाँ लगायी जाती हैं (1-2)..




02




03

चित्र - 02 : आई.जी.बी.एस. का सम्पूर्ण चित्र।

चित्र - 03 : आई.जी.बी.एस. को फर्श पर लगाने के बाद दृश्य।



04




05

चित्र-04 : आई.जी.बी.एस. का बेट सहित पूर्ण चित्र।


चित्र-05 : आई.जी.बी.एस. के बेट तथा इन्टरसेप्टर को दीमक द्वारा नष्ट कर देने के बाद का चित्र।

(2) भवनों में भूमि से ऊपर लगाया जाने वाला बेंट स्टेशन (AGBS): इस बेटिंग स्टेशन को भवनों के भीतरी तथा बाहरी भाग पर लगाने के लिये डिजाईन किया गया है। यह 17.5 x 7.5 x 8.5 सेमी. साईज का प्लास्टिक का बना बाक्स होता है। भूमिगत बेटिंग स्टेशन के संदृश इसमें भी तली तथा साईडों पर जाली बनी होती

है। पीछे की ओर, चारों कोनों पर स्कू लगाने हेतु व्यवस्था दी गयी है। इसके शीर्ष पर ढक्कन होता है, जिसको विशेष स्कू की सहायता से फिट कर दिया जाता है। (चित्र सं. 06-07)



06



07

चित्र - 06 : ए.जी.बी.एस. का बेट सहित पूर्ण चित्र।

चित्र - 07 : ए.जी.बी.एस. के बेट को दीमक द्वारा नष्ट कर देने के बाद का चित्र।

बेट स्टेशन का लगाया जाना तथा कार्यविधि - भूमिगत बेट स्टेशन (आई.जी.बी.एस.) तथा भूमितल से ऊपर लगाये जाने वाले बेट स्टेशन (ए.जी.बी.एस.) को लगाना तथा फिट करना बहुत ही आसान है। भूमिगत बेट स्टेशनों (आई.जी.बी.एस.) को भवनों के चारों ओर 1.5 मीटर के अन्तराल पर 8-12" फिट गहरे गड्डे खोदकर दबा दिया जाता है। दबाने के पश्चात प्रत्येक आई.जी.बी.एस. में लकड़ी के (इंटरसेप्टर) लगा दिये जाते हैं, तथा ढक्कन को एक विशेष चाबी की सहायता से बंद कर दिया जाता है। (चित्र-03) प्रत्येक आई.जी.बी.एस. के चारों ओर से गीली मिट्टी वापस इस प्रकार भर दी जाती है, कि बेट स्टेशन हिलने न पायें। तत्पश्चात बेट स्टेशन को 1-2 सप्ताह तक इसी प्रकार छोड़ दिया जाता है। भूमितल से ऊपर लगाये जाने वाले बेट स्टेशनों (ए.जी.बी.एस.) को भवनों में सावधानी पूर्वक उन स्थानों पर लगाया जाता है, जहां पर पूर्व में दीमक की गतिविधि पायी गयी हों। ऐसे स्थानों पर दीमकों की लाइनें आसानी से दिख जाती है, उन लाइनों के ऊपर ए.जी.बी.एस. को दिये गये स्कू की सहायता से दीवार या लकड़ी पर फिट कर दिया जाता है। (चित्र-06-07) भवन के चारों ओर आई.जी.बी.एस. लगाने के 1-2 सप्ताह के भीतर लगभग 10% बेट स्टेशनों में दीमक प्रवेश कर जाती है, तथा लकड़ी की फट्टियों को खाना शुरू कर देती है। ए.जी.बी.एस. चूकि दीमक की लाइनों के ऊपर लगाया जाता है अतः इसमें दीमक तुरन्त प्रवेश कर जाती है। दीमक का "बेट" पाऊंडर के रूप में होता है, जिसको, पाऊंडर का एक भाग तथा छः भाग पानी (भार / भार) अथवा एक भाग पाऊंडर तथा 1.5 भाग पानी (आ./आ.) की मात्रा में अच्छी प्रकार मिलाकर तैयार कर लेते हैं। जो देखने पर फोम जैसा लगता है। अब इस बेट मिश्रण को प्लास्टिक के स्कूप की सहायता से आई.जी.बी.एस. तथा ए.जी.बी.एस. में भर दिया जाता है।

परीक्षण - हिन्दुस्तान के तीन शहरों - रूड़की, देहरादून, तथा मैसूर की विभिन्न जलवायु व मृदा में इस बेटिंग सिस्टम का अध्ययन किया गया। यह अध्ययन दो चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण में, प्रत्येक शहर में दीमक

ग्रसित पांच-पांच भवन तथा पांच-पांच दीमक की बाँवियाँ चुनी गयी तथा द्वितीय चरण में तीन-तीन भवन तथा तीन-तीन दीमक की बाँवियाँ ली गयी तथा उनमें बेटिंग सिस्टम लगाया गया । (चित्र : 08-09)



08



09

चित्र - 08 : दीमक की एक सक्रिय बाँबी का चित्र।

चित्र - 09 : प्रयोग उपरान्त, उपचारित दीमक की बाँबी को गहराई तक खोदने पर एक भी जीवित दीमक नहीं मिली।

रूड़की में 121 आई.जी.बी.एस. तथा 65 ए.जी.बी.एस., देहरादून में 100 आई.जी.बी.एस. तथा 37 ए.जी.बी.एस. और मैसूर में 95 आई.जी.बी.एस. तथा 34 ए.जी.बी.एस. प्रयोग किये गये। प्रत्येक बेट स्टेशन को दो-दो माह के निश्चित समयान्तराल के मध्य जांचा गया। जिन बेट स्टेशनों में बेट दीमको द्वारा खा लिया जाता था, उनको फिर से भर दिया जाता था। परीक्षण काल में कुछ आई.जी.बी.एस. तथा ए.जी.बी.एस. में बेट सूख जाता था, उनमें प्रत्येक परीक्षण के समय पानी का छिड़काव किया गया, ताकि दीमक आकर्षित हो और बेट सामग्री का उपयोग करें। तालिका संख्या-01. में तीनों शहरों में बेट सामग्री से उपचारित भवनों, स्थापित किये गये आई.जी.बी.एस. तथा ए.जी.बी.एस. की कुल संख्या, दीमक द्वारा प्रयोग की गयी बेट सामग्री का विवरण दिया गया है। प्रत्येक शहर में दीमक की बाँवियों में भी आई.जी.बी.एस. की स्थापना उपरोक्तानुसार की गयी तथा एक नियमित समयान्तराल के बाद निरीक्षण किया जाता रहा। (1) प्रत्येक शहर में कुल आठ-आठ दीमक की बाँवियाँ चुनी गयी। उपचारित बाँवियों की तुलना अनुपचारित बाँवियों से की गयी। (चित्र : 10-11)



10



11

चित्र-10 : बिना उपचारित (कंट्रोल) दीमक की बाँबी का चित्र।


चित्र-11 : अंत में, बिना उपचारित दीमक की बाँबी से जीवित रानी "दीमक" पायी गयी।

प्रत्येक उपचारित दीमक की बाँबी में चार-चार आई.जी.बी.एस. लगाये गये। शुरुआत में सभी बेट स्टेशनों में बेट की समान मात्रा 800 ग्राम डाली गयी, तत्पश्चात दो माह बाद द्वितीय प्रेक्षण के समय अधिकतर में 1200 ग्राम मात्रा डाली गयी। तृतीय प्रेक्षण चार माह बाद लिया गया। दीमक द्वारा बेट सामग्री असमान रूप से प्रयोग की गयी। अतः लगभग 30% बाँबियों में 1200 ग्राम व शेष में 800 ग्राम बेट सामग्री डाली गयी। रूड़की में औसतन 224.7 बेट ग्राम प्रति बेट स्टेशन की दर से प्रयोग की गयी, जबकि देहरादून में यह मात्रा 261.31 ग्राम तथा मैसूर में 289.1 ग्राम प्रयोग की गयी।

परिणाम — क्लोरफ्लुआजुरॉन 0.1% युक्त बेट सामग्री पर आधारित प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकला, कि इस बेट सामग्री के प्रयोग से भवनों में 15-17 सप्ताह के भीतर 100% दीमक नियन्त्रण हो जाता है। उसी प्रकार सभी 24 दीमक की बाँबियों में भी मात्र छः माह के भीतर सभी दीमकों का सफाया हो जाता है।

नाम स्थल	कुल भवन जिन मे कार्य किया	कुल बेट स्टेशन लगाये गये			सख्या तथा प्रतिशत बेट स्टेशन संक्रमित				सख्या तथा प्रतिशत बेट स्टेशन असंक्रमित
		IGB S	AGB S	Total	Months				
					0M	02M	04M	06M	
रुडकी	08	121	65	186	(105) 56.0 %	(24) 13.0%	00	00+	(57) 31.0%
देहरा दून	08	100	37	137	(73) 53.2 %	(27) 19.7%	00	00+	(37) 27.0%
मैसूर	08	95	34	129	(82) 63.5 %	(23) 17.8%	00	00	(24) 18.6%
कुल	24	316	136	452	(260) 57.5 %	(74) 16.3%	00	00	(118) 26.1%

तालिका संख्या-01



भवनों में दीमक नियन्त्रण हेतु "बेटिंग सिस्टम" का प्रयोग करने पर न तो कोई झिलिंग या तोड़फोड़ की आवश्यकता होती है, न ही हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है, और न ही हमारे स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। निर्धारित लक्ष्य विशेष (target specific) होने के कारण इससे अन्य लाभदायक जीवों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपभोक्ताओं के लिए भी इसको प्रयोग करना आसान है। अतः आधुनिक भवनों में दीमक नियन्त्रण हेतु "बेटिंग सिस्टम" एक सर्वोत्तम उपाय है। (1, 2)

लेखकगण, उपरोक्त शोध कार्य हेतु प्रयोगशाला तथा अन्य सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए, निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की का धन्यवाद करते हैं, तथा बेट सामग्री सहित आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मैसर्स पैस्ट्रोल (इंडिया) लि. मुम्बई का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

संदर्भ सूची :

1. इवेलुऐशन ऑफ क्लोरफ्लुआजुरॉन 0.1% टर्माइट बेट (रिक्विम) फॉर टर्माइट मैनेजमेंट इन बिल्डिंग (2009)। के.भ.अनु.सं. रिपोर्ट संख्या BPML(S)/6717 जुलाई, 2009
2. बेटन सी. पीटर तथा किस्टोफर जे. फिजराल्ड (2003) : फिल्ड इवेलुऐशन ऑफ दी बेट टाक्सिकेंट क्लोरफ्लुआजुरॉन इन इलिमिनेटिंग काप्टोटर्मिस ऐसीनेसीफार्मिस (फागट) (आईसोप्टेरा:राइनोटर्मिटीडी) जे. इकोन. एण्टामाल. 96(6) : 1828 - 1831
3. सेन-शर्मा, पी.के.(1995) : रिसेंट ट्रेड्स एण्ड स्ट्रटेजीज इन सबटरेनियन टर्माइट कंट्रोल इन बिल्डिंग। नेशनल वर्कशाप आन टर्माइट मैनेजमेंट इन बिल्डिंग, सी.बी.आर.आई., रुड़की, फरवरी 20-21, 1995, पी.पी. -21
4. सु. एन.वाई., एट.अल. (1998) : एलीमिनेशन ऑफ सबटरेनियन टर्माइट पापुलेशन फ्रॉम द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, नेशनल मोनुमेंट यूजिंग बेट मैट्रिक्स कटेनिंग एन इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर - हैग्जापलुमोरॉन, जे. अमे. इंसटी. कंसं. कर्जव. 37 - 282-292
5. सी.एम. गरसिया, एम. वाई. गिरॉन तथा एस.जी. ब्राडबैंड (2007) : टर्माइट बेटिंग सिस्टम : ऐ न्यू डायमेशन ऑफ टर्माइट कंट्रोल इन फिलीपींस, पेपर प्रजेंटेटेड इन 38 वी मीटिंग जेक्सन लेक, वॉशिंग यू.एस.ए., 24-24 मई 2007
6. इवॉन, टी.ए. (2001) : इस्टीमेटिंग रिलेटिव डिक्लाईन इन पापुलेशन आफ सबटरेनियन टर्माइट (आयसोप्टेरा : राइनोटर्मिटीडी) ड्यू टू बेटिंग। जे. इकोन. एण्टामाल. 94 : 1602 - 1609।
7. सूसन, सी. जॉन (2003) : टार्गेटेड वर्सेस स्टैंडर्ड बेट स्टेशन प्लेसमेंट अफेक्स सबटरेनियन टर्माइट (आईसोप्टेरा : राइनोटर्मिटीडी) इफेस्टेशन रेट। जर्नल ऑफ इकोनामि एण्टामालॉजी, 96(5) : 1520-1525
8. पॉटर एम.एफ., ई.ए. एलियासन, के. डेविस तथा आर.टी. बेसिन (2001) : मैनेजिंग सबटरेनियन टर्माइट (आईसोप्टेरा : राइनोटर्मिटीडी) इन द मिडवेस्ट विद हैग्जापलुमोरॉन बेट एण्ड प्लेसमेंट कंसीडरेशन अराऊड स्ट्रक्चर। सोसियोबायलॉजी (2001), 38 : 565 - 584
9. डंकन, एफ.डी. (1997) : बिहेवियरल रिस्पॉस टू पॉयजन बेट बॉय द टर्माइट होडोटर्मिस मोजॉबिकस (हैगैन), इन्सेक्ट सोई. अप. 17 : 221 - 225
10. सुलेमान यूसुफ (2004) : करेंट टर्माइट मैनेजमेंट इन इंडोनेशिया। इन प्रोसिडिंग ऑफ द प्रथम पेसिफिक रिम टर्माइट रिसेर्च ग्रुप मीटिंग। पेनांग मलेशिया, 32-36
11. सू. एन. वाई. (1994) : फील्ड इवेलुऐशन ऑफ ए हैग्जापलुमोरॉन बेट फॉर पापुलेशन सप्रेसन ऑफ सबटरेनियन टर्माइट (आईसोप्टेरा : राइनोटर्मिटीडी)। जे. इकोन. एण्टामाल., 1994, 87 : 389-397
12. पीटर्स, बी.सी. तथा सी. जे. फिजराल्ड (2003) फिल्ड इवेलुऐशन ऑफ द बेटिंग टॉक्सिकेंट क्लोरफ्लुआजुरॉन इन एलीमिनेटिंग काप्टोटर्मिस ऐसीनेसीफार्मिस (फागट) (आयसोप्टेरा : राइनोटर्मिटीडी)। जे. इकोन. एण्टामाल., 2003, 96 : 1828-1831